



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 330]

नई दिल्ली, रविवार, जुलाई 24, 1977/श्रावण 2, 1899

No. 330]

NEW DELHI, SUNDAY, JULY 24, 1977/SRAVANA 2, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 1977

**S.O. 584(E).**—The ceremony of assumption of Office of the President by Shri Neelam Sanjiva Reddy, the President-elect, will take place in the Central Hall, Parliament House at 10 00 A M on Monday, the 25th July, 1977

For this ceremony, there will assemble in the Central Hall, the Prime Minister and other Ministers, the Speaker of the Lok Sabha, the Chief Justice of India, Heads of Diplomatic Missions, Heads of U.N. Agencies, Members of the Lok Sabha and Rajya Sabha, the Lt Governor, Delhi, the Principal Civil and Military Officers of the Government of India and the Armed Forces

The Oath of Office will be taken by President-elect in the presence of the Chief Justice as prescribed by the Constitution. A salute of 21 guns will be fired. The President will deliver an address. The President and the Vice-President will then leave the Central Hall.

Uniforms will be worn by Officers of the Defence Services and the Police. Civilian Officers attending the ceremony will wear the formal dress.

[No 2/3/77-Public]

T. C A SRINIVASAVARADAN, Secy

## गृह संत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1977

का०शा० 584(अ).—श्री नीलम संजीव रेड्डी, निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा पद-ग्रहण समारोह सोमवार, 25 जुलाई, 1977 को पूर्वाह्न 10.00 बजे केन्द्रीय हाल (संसद भवन) में होगा।

इस समारोह के लिये केन्द्रीय हाल (संसद भवन) में प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्रीगण, लोक सभा के अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राजनयिक मिशनो के प्रधान, मयुक्त राष्ट्र एजेसियो के प्रधान, लोक सभा और राज्य सभा के सदस्यगण, दिल्ली के उप-राज्यपाल, भारत सरकार के मुख्य असेनिक तथा सैनिक अधिकारीगण एकत्रित होंगे।

2. जैसा सविधान में निर्धारित है, निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा अपने पद की शपथ, मुख्य न्यायाधीश के समक्ष ली जाएगी। 21 तोपों की मलासी दी जाएगी। राष्ट्रपति भाषण देंगे। फिर राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति केन्द्रीय हाल से प्रस्थान करेंगे।

3. सैनिक सेवाओं और पुलिस अधिकारियों द्वारा बर्दिया पहनी जायेगी। समारोह में उपस्थित असेनिक अधिकारी औपचारिक पोशाक पहनेंगे।

[संख्या 2377-पब्लिक]

टी०सी०ए० श्रीनिवासवरदन, सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा  
मुद्रित तथा नियन्त्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977